

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2023—पौष 4, शक 1945

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2023

क्र. 234-पीएसजी-आरएमपी-2023.—मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने निम्नलिखित नवनिर्वाचित विधायकगण को दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 3.30 बजे राजभवन, भोपाल में शासन के मंत्री / राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) / राज्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई गई :-

## मंत्री

1. श्री कुंवर विजय शाह
2. श्री कैलाश विजयवर्गीय
3. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
4. श्री राकेश सिंह
5. श्री करण सिंह वर्मा
6. श्री उदय प्रताप सिंह
7. श्रीमती सम्पतिया उइके
8. श्री तुलसीराम सिलावट
9. श्री एदल सिंह कंधाना
10. सुश्री निर्मला भूरिया
11. श्री गोविन्द सिंह राजपूत
12. श्री विश्वास सारंग
13. श्री नारायण सिंह कुशवाह
14. श्री नागर सिंह चौहान
15. श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
16. श्री राकेश शुक्ला
17. श्री चैतन्य काश्यप "भैया जी"
18. श्री इन्दर सिंह परमार

**राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

19. श्रीमती कृष्णा गौर
20. श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी
21. श्री दिलीप जायसवाल
22. श्री गौतम टेटवाल
23. श्री लखन पटेल
24. श्री नारायण सिंह पंवार

**राज्यमंत्री**

25. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल
26. श्रीमती प्रतिमा बागरी
27. श्री अहिरवार दिलीप
28. श्रीमती राधा सिंह

डी. पी. आहूजा, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.